



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2003/माघ 12, 1924

No. 95]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2003/MAGHA 12, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2003

का.आ. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्न तट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 (2002 का 69) की धारा 1 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 फरवरी, 2003 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एस.आर.-11011/2/2002-एम.ए.]

एम. रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2003

S.O. 115(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (5) of Section 1 of the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002 (69 of 2002), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2003, as the date on which the said Act shall come into force.

[F.No. S.R.-11011/2/2002-M.A.]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.